

**प्रमाणन पत्र के अंतर्गत शामिल किये जाने के प्रस्तावित
ब्रांड नाम/ ट्रेड मार्का के संबंध में आवेदक / लाइसेंसधारी की घोषणा**
**APPLICANT'S / LICENSEE'S DECLARATION OF BRAND NAME/
TRADEMARK PROPOSED TO BE COVERD UNDER CERTIFICATION**

1. आवेदन सं./लाइसेंस सं.....
Application No. / License No.
2. लाइसेंस की वैधता तक वैध
License valid up to :-
3. विनिर्माता का नाम और पता.....
Name of the Manufacturer and Address.....
4. प्रयोग किये जा रहे ब्रांड नाम / ट्रेड मार्क.....
Brand Names/ Trademark (s) being used.....

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>5. वह ब्रांड नाम / ट्रेड मार्क जो भा.मा.
ब्यूरो मानक मुहर लगे उत्पाद पर
अंकित किया जाएगा। (ब्रांड/ट्रेड मार्क के
वास्तविक डिजाइन का वितरण)
Braned Name / Trade Mark(s) which
would be marked on the product
bearing the BIS standard Mark
(Give actual design depication of the
Brand Name / Trade Mark(s)</p> | <p>स्वयं और
अन्यों के
स्वामित्व में

Owned by
self or
others</p> | <p>पंजीकृत /
अपंजीकृत

Regidtered
Unregistered</p> | <p>पंजीकरण /
प्रारंभ करने
की तारीख

Date of
Registration/
Introduction</p> |
|---|--|--|--|

क.

a)

ख.

b)

ग.

c)

6. ऐसे ब्रांड नाम जो उसी उत्पाद पर लगाए गए थे और जिन्हे बाजार मे भामा ब्यूरो की मानक मुहर बिना बैचा गया। कृप्या कारण बताएँ।
Other Brand Name (s) / Trade Marks (s) used for the same product marketed without BIS standard Mark.

7. यदि किसी अन्य पार्टी / विनिर्माता के ब्रांड नाम / ट्रेड मार्क का प्रयोग उक्त प्रयोजन के लिये किया जा रहा है तो ब्रांड नाम और ट्रेड मार्क के विवरण डिजाइन दें/तथा इसके प्रयोग को प्राधिकृत करने वाले करार की प्रति भेजें।

In case Brand Name (S) / Trade Mark (s) of any other Party/ Manufacturer is being used for purposes of above give the design depiction of the Brand Name(s) / Trade mark (s) and copy of the agreement authorizing the use of the same.

8. मैं/हम भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना के प्रचालन से संबंधित जब भी अन्य ब्रांड नाम/ट्रेड मार्क का प्रयोग करने का प्रस्ताव करेंगे तो उसके बारे में भारतीय मानक ब्यूरो को पहले ही सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

I/ We undertake to inform BIS in advance as and when we propose to use any other Brand Names/Trade Mark(s) in conjunction with the operation of the BIS Certification scheme.

9. मैं / हम यह भी वचन देते हैं कि जहां तक संभव होगा इस विशिष्ट के अनुरूप संपूर्ण उत्पादन पर भामा ब्यूरो की मोहर अंकित की जाएगी। चाहे कोई भी ब्रांड नाम/ ट्रेड मार्क प्रयोग किया गया हो।

I/We also undertake that as far as possible, the entire production which conforms to the specification shall be marked with the BIS Mark, irrespective of the Brand Name (s) / Trade Mark(s) used.

10. मैं/ हम यह भी समझाता हूँ /समझते हैं कि उपर्युक्त केवल भामा ब्यूरो को सूचना के रूप में दिया गया है और यह कि भामा ब्यूरो की किसी भी ब्रांड नाम / ट्रेड मार्क को लगाने की अनुमति / अनुमोदन में कोई भूमिका नहीं होगी और न यह कि भामा ब्यूरो ने ऊपर दिये ब्रांड नाम / ट्रेड मार्क को लगाने की अनुमति / अनुमोदन दे दी है / दे दिया है। इस संबंध में पूरी जिम्मेदारी मेरी /हमारी होगी।

I/ We understand that above has been given only as information to BIS, That BIS has no role in permitting / approving of any Brand Name or Trade Mark, that this in not in anyway be interpreted to mean that BIS has permitted/ approved the use of the Brand Names and Trade Marks listed above, and that the responsibility is entirely mine/ours.

तारीख
Dated :

हस्ताक्षर :
Signature :
नाम :
Name :
पदनाम :
Designation :